

M.Phil./Ph.D. ADMISSION TEST, 2018

Paper II

Subject : 101 - ABST

Roll No. (In figures)(In words)

OMR Sheet Barcode No.

Signatures of Invigilators 1. 2.

Names of Invigilators 1. 2.

Time : 2 Hours

Max. Marks : 200

GENERAL INSTRUCTIONS

1. Read the instructions given on the Question Booklet and OMR Sheet before starting the answers. All the entries should be filled by **blue or black ball point pen**.
2. The Question Booklet contains **100** questions and all questions are compulsory.
3. Each question is of **2** marks. There is **no negative marking**.
4. Candidates must ensure that the Question Booklet issued to them has all the questions. Defective Question Booklet can be got changed within **10** minutes.

1. प्रश्नों के उत्तर लिखने से पूर्व प्रश्न-पुस्तिका और ओ.एम.आर. शीट पर दिये हुए निर्देश पढ़ें। सभी प्रविष्टियाँ नीले अथवा काले बॉल पॉइन्ट पेन से भरें।
2. प्रश्न-पुस्तिका में **100** प्रश्न हैं और सभी प्रश्न अनिवार्य हैं।
3. प्रत्येक प्रश्न **2** अंक का है। कोई नकारात्मक अंकन (**negative marking**) नहीं होगा।
4. परीक्षार्थी सुनिश्चित कर लें कि उन्हें जो प्रश्न-पुस्तिका दी गई है उसमें सभी प्रश्न अंकित हैं। त्रुटिपूर्ण प्रश्न-पुस्तिका **10** मिनट की अवधि में बदलवाई जा सकती है।

5. In case of any discrepancy between English and Hindi versions of a question, English version will be taken as correct, wherever there are both versions.
 6. Select and darken the circle corresponding to the answer [(A) or (B) or (C) or (D)] in OMR sheet.
 7. In case more than one circles are darkened in a question, it will not be evaluated.
 8. Do not make any stray marks on OMR sheet and do not fold it.
 9. Any candidate found removing pages from the Question Booklet may be disqualified and prosecuted.
 10. Use of unfair means will disqualify the candidate from the examination.
 11. Cell phone, calculator or any such devices are not allowed in the Examination Hall.
 12. No candidate is allowed to leave the seat before handing over the original OMR sheet to the invigilator. Candidate can take Question Booklet and Carbon copy of OMR sheet.
5. किसी प्रश्न के अंग्रेजी और हिन्दी रूपान्तरणों में भिन्नता होने की स्थिति में अंग्रेजी रूपान्तरण सही माना जायेगा जहाँ प्रश्न-पत्र दोनों भाषाओं में है।
 6. सही उत्तर का चयन करें तथा सम्बन्धित [(A) अथवा (B) अथवा (C) अथवा (D)] गोले को ओ.एम.आर. शीट में काला करें।
 7. किसी प्रश्न में एक से अधिक गोले को काला करने पर उसे जाँचा नहीं जायेगा।
 8. ओ.एम.आर. शीट पर किसी तरह का चिह्न न बनायें और न ही उसे मोड़ें।
 9. प्रश्न-पुस्तिका से पृष्ठ निकालते हुए पाये जाने पर परीक्षार्थी को अयोग्य घोषित किया जा सकता है और उसके विरुद्ध विधिक कार्यवाही भी की जा सकती है।
 10. अनुचित साधनों का उपयोग करने पर परीक्षार्थी को परीक्षा के लिए अयोग्य घोषित कर दिया जायेगा।
 11. सेलफोन, संगणक और ऐसी किसी भी अन्य प्रविधियों को परीक्षा भवन में लाने की अनुमति नहीं है।
 12. ओ.एम.आर. शीट की मूल प्रति वीक्षक को सुपुर्द किये बिना किसी भी परीक्षार्थी को अपना स्थान छोड़ने की अनुमति नहीं है। परीक्षार्थी प्रश्न-पुस्तिका एवं ओ.एम.आर. शीट की कार्बन प्रति को अपने साथ ले जा सकेगा।

1. Respective three stages of accounting cycle are :
 - (A) Classification, Primary Books, Summary
 - (B) Primary Books, Classification, Summary
 - (C) Summary, Primary Books, Classification
 - (D) Primary Books, Summary, Classification

2. Accounting Principles are generally based upon :
 - (A) Objectivity
 - (B) Subjectivity
 - (C) Convenience of recording
 - (D) None of the above

3. Misuse of which convention creates secrete reserve :
 - (A) Conservatism
 - (B) Materiality
 - (C) Consistency
 - (D) Full Disclosure

4. Following all items are classified as fundamental accounting assumptions except :
 - (A) Consistency
 - (B) Separate Entity
 - (C) Going Concern
 - (D) Accrual

5. Which Accounting Standard has been issued on "Revenue Recognition" ?
 - (A) AS - 2
 - (B) AS - 5
 - (C) AS - 7
 - (D) AS - 9

6. Prepaid Insurance is a :
 - (A) Personal Account
 - (B) Real Account
 - (C) Nominal Account
 - (D) None of the above

1. लेखांकन चक्र की क्रमानुसार तीन अवस्थायें हैं :
 - (A) वर्गीकरण, प्रारम्भिक लेखा, सारांश
 - (B) प्रारम्भिक लेखा, वर्गीकरण, सारांश
 - (C) सारांश, प्रारम्भिक लेखा, वर्गीकरण
 - (D) प्रारम्भिक लेखा, सारांश, वर्गीकरण

2. लेखांकन सिद्धान्त सामान्यतया आधारित होते हैं :
 - (A) वस्तुपरकता पर
 - (B) व्यक्तिपरकता पर
 - (C) दर्ज करने की सुविधा पर
 - (D) उपरोक्त में से कोई नहीं

3. कौनसी परम्परा के दुरुपयोग से गुप्त संचय का निर्माण हो जाता है ?
 - (A) रूढ़िवादिता
 - (B) महत्त्वता
 - (C) एकरूपता
 - (D) पूर्ण प्रकटीकरण

4. निम्नलिखित सभी मदों को आधारभूत लेखांकन मान्यताओं के रूप में वर्गीकृत किया जाता है सिवाय :
 - (A) एकरूपता
 - (B) पृथक अस्तित्व
 - (C) निरन्तरता
 - (D) उपार्जन

5. "आगम मान्यता" पर कौनसा लेखा मानक जारी किया गया है ?
 - (A) लेखा मानक - 2
 - (B) लेखा मानक - 5
 - (C) लेखा मानक - 7
 - (D) लेखा मानक - 9

6. अग्रिम बीमा है एक :
 - (A) व्यक्तिगत खाता
 - (B) वास्तविक खाता
 - (C) अवास्तविक खाता
 - (D) उपरोक्त में से कोई नहीं

7. Which of the following is **not** a real account ?
- (A) Building account
(B) Drawings account
(C) Closing Stock account
(D) Goodwill account
8. A room was built by a trading concern at a cost of ₹ 50,000 but it was debited in Repairs account. It is an error of :
- (A) Omission
(B) Commission
(C) Principle
(D) Compensating
9. If sales are ₹ 60,000, Gross profit is $\frac{1}{3}$ of cost, purchases are ₹ 49,000 and closing stock is ₹ 9,000, then opening stock will be :
- (A) Nil
(B) ₹ 5,000
(C) ₹ 20,000
(D) ₹ 49,000
10. When shares are forfeited, the share capital account is debited by :
- (A) Paid up amount
(B) Calls-in-arrears
(C) Called up amount
(D) None of the above
11. Company who adopts Table F, charges interest on calls in arrears at the rate of :
- (A) 5%
(B) 6%
(C) 10%
(D) 12%
7. निम्नलिखित में से कौनसा खाता वास्तविक खाता नहीं है ?
- (A) भवन खाता
(B) आहरण खाता
(C) अन्तिम स्टॉक खाता
(D) ख्याति खाता
8. व्यापारिक संस्था ने ₹ 50,000 की लागत से एक कमरा बनाया, किन्तु इस खर्च को मरम्मत खाते नाम लिख दिया। यह अशुद्धि है :
- (A) भूलचूक की अशुद्धि
(B) हिसाब सम्बन्धी अशुद्धि
(C) सिद्धान्त की अशुद्धि
(D) क्षतिपूरक अशुद्धि
9. यदि विक्रय ₹ 60,000 है, सकल लाभ लागत का $\frac{1}{3}$ है, क्रय ₹ 49,000 है और अन्तिम स्कन्ध ₹ 9,000 है, तो प्रारम्भिक स्कन्ध होगा :
- (A) शून्य
(B) ₹ 5,000
(C) ₹ 20,000
(D) ₹ 49,000
10. जब अंशों का हरण किया जाता है, अंश पूँजी खाता डेबिट किया जाता है :
- (A) प्रदत्त राशि से
(B) बकाया माँग राशि से
(C) माँगी गई राशि से
(D) उपरोक्त में कोई नहीं
11. कम्पनी जो टेबिल एफ को अपनाती है, बकाया माँगों पर ब्याज _____ दर से वसूली करती है।
- (A) 5%
(B) 6%
(C) 10%
(D) 12%

12. A Company forfeited 200 shares of ₹ 100 each, ₹ 70 called up on which the shareholder paid ₹ 50 per share. These shares were reissued at ₹ 80 fully paid up. The share forfeited account will be debited in the reissue entry with :

- (A) ₹ 4,000
- (B) ₹ 6,000
- (C) ₹ 10,000
- (D) ₹ 16,000

13. Interest on debentures is calculated by the Company on :

- (A) Market price of debentures
- (B) Purchase price of debentures
- (C) Face value of debentures
- (D) Issued price of debentures

14. To compare the financial position of two Companies of different size, the analytical technique used is :

- (A) Comparative Statement Analysis
- (B) Common Size Statement Analysis
- (C) Trend Analysis
- (D) None of the above

15. Which of the following transaction does **not** affect the current ratio ?

- (A) Credit purchase of goods
- (B) Cash sale of old motor car
- (C) Issue of equity shares
- (D) Cash purchase of machinery

16. Current Ratio 2.5, Liquid Ratio 1.5, Working Capital ₹ 75,000. Current liability will be :

- (A) ₹ 75,000
- (B) ₹ 50,000
- (C) ₹ 1,00,000
- (D) None

12. एक कम्पनी ने ₹ 100 वाले 200 अंशों का हरण किया, जिन पर ₹ 70 प्रति अंश मांगा गया था परन्तु अंशधारक ने ₹ 50 का भुगतान किया था । इन अंशों को ₹ 80 प्रति अंश पर पूर्ण प्रदत्त मानते हुए पुनर्निर्गमित किया गया । पुनर्निर्गमन की जर्नल प्रविष्टि में अंश हरण खाते को डेबिट किया जायेगा :

- (A) ₹ 4,000
- (B) ₹ 6,000
- (C) ₹ 10,000
- (D) ₹ 16,000

13. कम्पनी द्वारा ऋणपत्रों पर ब्याज की गणना की जाती है :

- (A) ऋणपत्रों के बाजार मूल्य पर
- (B) ऋणपत्रों के क्रय मूल्य पर
- (C) ऋणपत्रों के अंकित मूल्य पर
- (D) ऋणपत्रों के निर्गमित मूल्य पर

14. दो अलग आकार की कम्पनियों की वित्तीय स्थिति की तुलना करने के लिए विश्लेषण की तकनीक काम में ली जाती है :

- (A) तुलनात्मक विवरण विश्लेषण
- (B) सामान्य आकार विवरण विश्लेषण
- (C) प्रवृत्ति विश्लेषण
- (D) उपरोक्त में से कोई नहीं

15. निम्नलिखित में से कौनसा व्यवहार चालू अनुपात को प्रभावित नहीं करता है ?

- (A) माल का उधार क्रय
- (B) पुरानी मोटर कार का नकद विक्रय
- (C) सामान्य अंशों का निर्गमन
- (D) मशीनरी का नकद क्रय

16. चालू अनुपात 2.5, तरल अनुपात 1.5, कार्यशील पूँजी ₹ 75,000 । चालू दायित्व होंगे :

- (A) ₹ 75,000
- (B) ₹ 50,000
- (C) ₹ 1,00,000
- (D) कोई नहीं

17. Average collection period - 3 months, Stock Turnover - 8 months, Gross Profit Ratio - 25%, Gross Profit - ₹ 4,00,000, Bills Receivable - ₹ 25,000, opening stock is less than ₹ 10,000 from closing stock. The amount of closing stock will be :
- (A) ₹ 7,95,000
(B) ₹ 8,05,000
(C) ₹ 8,00,000
(D) ₹ 7,90,000
18. Dividend received is a :
- (A) Cash flows from operating activities
(B) Cash flows from investing activities
(C) Cash flows from financing activities
(D) None of the above
19. Which one is included in the cash flows from financing activities ?
- (A) Income tax paid
(B) Interest paid
(C) Sale of investment
(D) Purchase of fixed assets
20. The minimum percentage of debentures to be redeemed required to transfer to Debenture Redemption Reserve out of profits before the redemption of debentures is :
- (A) 50%
(B) 25%
(C) 15%
(D) 100%
21. Balance of profit on Redemption of Debentures is transferred to :
- (A) Statement of Profit and Loss
(B) General Reserve
(C) Surplus
(D) Capital Reserve
17. औसत वसूली अवधि - 3 माह, स्टॉक आवर्त - 8 माह, सकल लाभ अनुपात - 25%, सकल लाभ - ₹ 4,00,000, प्राप्य विपत्र - ₹ 25,000, प्रारम्भिक स्टॉक अन्तिम स्टॉक से ₹ 10,000 कम है। अन्तिम स्टॉक की राशि होगी :
- (A) ₹ 7,95,000
(B) ₹ 8,05,000
(C) ₹ 8,00,000
(D) ₹ 7,90,000
18. प्राप्य लाभांश है :
- (A) संचालन गतिविधियों से रोकड़ प्रवाह
(B) विनियोग क्रियाओं से रोकड़ प्रवाह
(C) वित्तीय क्रियाओं से रोकड़ प्रवाह
(D) उपरोक्त में कोई नहीं
19. कौनसा मद वित्तीय क्रियाओं से रोकड़ प्रवाह में सम्मिलित किया जाता है ?
- (A) आयकर चुकाया
(B) ब्याज चुकाया
(C) विनियोग का विक्रय
(D) स्थाई सम्पत्तियों का क्रय
20. शोधन किये जाने वाले ऋणपत्रों का एक न्यूनतम प्रतिशत लाभों में से ऋणपत्र शोधन संचय में शोधन से पूर्व हस्तान्तरण करना आवश्यक है :
- (A) 50%
(B) 25%
(C) 15%
(D) 100%
21. ऋणपत्रों के शोधन पर लाभ का शेष हस्तान्तरित किया जाता है :
- (A) लाभ-हानि विवरण में
(B) सामान्य संचय में
(C) आधिक्य में
(D) पूँजीगत संचय में

22. What is the maximum redemption period of preference shares by a Company ?
- (A) 10 years
(B) 15 years
(C) 20 years
(D) 25 years
23. Capital Redemption Reserve can be created by using :
- (A) Securities premium
(B) Capital reserve
(C) General reserve
(D) Profit on reissue of forfeited shares
24. Balance of Capital Redemption Reserve can be used :
- (A) To write off Goodwill
(B) To issue partly paid bonus shares
(C) To issue fully paid bonus shares
(D) All of the above
25. What is the debt equity ratio after buy back of shares ?
- (A) 1 : 2
(B) 1 : 3
(C) 2 : 1
(D) 3 : 2
26. There is one whole time director and seven part-time directors. The maximum remuneration to all will be :
- (A) 11%
(B) 5%
(C) 10%
(D) 6%
22. एक कम्पनी द्वारा पूर्वाधिकार अंशों के शोधन की अधिकतम अवधि क्या है ?
- (A) 10 वर्ष
(B) 15 वर्ष
(C) 20 वर्ष
(D) 25 वर्ष
23. पूँजी शोधन संचय खाते के निर्माण के लिए उपयोग किया जा सकता है :
- (A) प्रतिभूति प्रीमियम का
(B) पूँजी संचय का
(C) सामान्य संचय का
(D) जब्त अंशों के पुनर्निर्गमन पर लाभ का
24. पूँजी शोधन संचय खाते के शेष का उपयोग किया जा सकता है :
- (A) ख्याति को अपलिखित करने में
(B) अंशतः प्रदत्त बोनस अंश देने में
(C) पूर्ण प्रदत्त बोनस अंश देने में
(D) उपरोक्त सभी में
25. अंशों की वापसी खरीद के बाद ऋणपूँजी अनुपात है :
- (A) 1 : 2
(B) 1 : 3
(C) 2 : 1
(D) 3 : 2
26. कम्पनी में एक पूर्णकालीन संचालक और सात अंशकालिक संचालक हैं। सभी का अधिकतम पारिश्रमिक होगा :
- (A) 11%
(B) 5%
(C) 10%
(D) 6%

27. Proposed dividend of current year is shown in the final accounts of Company as :
- (A) Current liability
(B) Contingent liability
(C) Appropriation of profits
(D) None of the above
28. Sub-division of shares is example of :
- (A) Reduction in Share capital
(B) Alteration in Share capital
(C) External Reconstruction
(D) None of the above
29. An old Company is liquidated and a new Company is formed to take over the business of old Company is an example of :
- (A) Internal Reconstruction
(B) Amalgamation
(C) External Reconstruction
(D) None of the above
30. One Company is liquidated and an existing Company takes over the business of liquidated Company is known as :
- (A) External Reconstruction
(B) Amalgamation
(C) Absorption
(D) Internal Reconstruction
31. If all the assets and liabilities of the vendor Company are taken over at book value by purchasing Company it is known as :
- (A) Amalgamation in the nature of purchase
(B) Amalgamation in the nature of merger
(C) Absorption
(D) None of the above
27. चालू वर्ष के प्रस्तावित लाभांश को कम्पनी के अन्तिम खातों में दिखाया जाता है :
- (A) चालू दायित्व के रूप में
(B) संदिग्ध दायित्व के रूप में
(C) लाभों के नियोजन के रूप में
(D) उपरोक्त में से कोई नहीं
28. अंशों का उपविभाजन उदाहरण है :
- (A) अंश पूँजी में कमी का
(B) अंश पूँजी में परिवर्तन का
(C) बाह्य पुनर्निर्माण का
(D) उपरोक्त में से कोई नहीं
29. एक पुरानी कम्पनी का समापन एवं इस कम्पनी के व्यवसाय को लेने के लिए एक नई कम्पनी की स्थापना करना एक उदाहरण है :
- (A) आन्तरिक पुनर्निर्माण का
(B) एकीकरण का
(C) बाह्य पुनर्निर्माण का
(D) उपरोक्त में से कोई नहीं
30. एक कम्पनी का समापन एवं एक विद्यमान कम्पनी द्वारा इस कम्पनी के व्यवसाय का अधिग्रहण जाना जाता है :
- (A) बाह्य पुनर्निर्माण
(B) एकीकरण
(C) संविलयन
(D) आन्तरिक पुनर्निर्माण
31. यदि विक्रेता कम्पनी की सभी सम्पत्तियों एवं दायित्वों को क्रेता कम्पनी पुस्तक मूल्य पर लेती है तो इसे जाना जाता है :
- (A) क्रय की प्रकृति का एकीकरण
(B) विलय की प्रकृति का एकीकरण
(C) संविलयन
(D) उपरोक्त में से कोई नहीं

32. Which Accounting Standard has been issued on consolidated Financial Statements ?

- (A) AS - 23
- (B) AS - 22
- (C) AS - 26
- (D) AS - 21

33. On 31st March, 2019 value of building in the balance sheet of Subsidiary Company is ₹ 95,000. Holding Co. purchased 75% share of Subsidiary Co. on 1st October, 2018. On this date Holding Company valued the building at ₹ 1,15,000. Rate of Depreciation is 5% p.a. What is the amount of profit on revaluation ?

- (A) ₹ 20,000
- (B) ₹ 25,000
- (C) ₹ 17,500
- (D) ₹ 15,000

34. Secondary packing material is an item of :

- (A) Distribution cost
- (B) Production cost
- (C) Raw material cost
- (D) Prime cost

35. This is **not** a method of Notional Pricing of material issues :

- (A) Standard pricing method
- (B) Replacement pricing method
- (C) Inflated pricing method
- (D) Base stock pricing method

36. In this bonus plan, the worker gets bonus equal to 50% of time saved :

- (A) Gantt Bonus Plan
- (B) Merrick Bonus Plan
- (C) Rowan Bonus Plan
- (D) Halsey Bonus Plan

32. समेकित वित्तीय विवरणों पर कौनसा लेखा मानक जारी किया गया है ?

- (A) लेखा मानक - 23
- (B) लेखा मानक - 22
- (C) लेखा मानक - 26
- (D) लेखा मानक - 21

33. 31 मार्च, 2019 को सहायक कम्पनी के चिट्ठे में भवन का मूल्य ₹ 95,000 है। धारक कम्पनी ने सहायक कम्पनी के 75% अंश 1 अक्टूबर, 2018 को खरीदे। उस तिथि को धारक कम्पनी ने भवन का मूल्यांकन ₹ 1,15,000 किया। मूल्यहास की दर 5% वार्षिक है। पुनर्मूल्यांकन पर लाभ कितना हुआ ?

- (A) ₹ 20,000
- (B) ₹ 25,000
- (C) ₹ 17,500
- (D) ₹ 15,000

34. अनुपूरक पैकिंग सामग्री एक मद है :

- (A) वितरण लागत की
- (B) उत्पादन लागत की
- (C) प्रत्यक्ष सामग्री लागत की
- (D) मूल लागत की

35. यह सामग्री निर्गमन के काल्पनिक मूल्यांकन की विधि नहीं है :

- (A) प्रमाप मूल्यांकन विधि
- (B) प्रतिस्थापन मूल्यांकन विधि
- (C) स्फीति मूल्यांकन विधि
- (D) आधार स्कंध मूल्यांकन विधि

36. इस बोनस योजना में, बचाए गए समय के 50 प्रतिशत के बराबर श्रमिकों को बोनस दिया जाता है :

- (A) गैण्ट बोनस योजना
- (B) मैरिक बोनस योजना
- (C) रोवन बोनस योजना
- (D) हाल्से बोनस योजना

37. Given that standard time for a job is 8 hours, actual time taken by a worker is 6 hours and time rate is ₹ 200 per hour, the total wages under Rowan Plan is :

- (A) ₹ 1,200
- (B) ₹ 1,500
- (C) ₹ 1,400
- (D) ₹ 1,600

38. Normal Bad Debt is an item related to :

- (A) Factory overhead
- (B) Selling overhead
- (C) Distribution overhead
- (D) Cost of production

39. Maximum possible production capacity of a plant, when no operating time is lost is its :

- (A) Theoretical capacity
- (B) Practical capacity
- (C) Normal capacity
- (D) Capacity based on sales expectancy

40. Coefficient of non-determination is :

- (A) γ^2
- (B) $1 - \gamma^2$
- (C) σ^2
- (D) b_{xy} and b_{yx}

41. When P/V ratio is 0.6, Marginal cost of production is ₹ 20; then the selling price will be :

- (A) ₹ 40
- (B) ₹ 52
- (C) ₹ 28
- (D) ₹ 50

37. यदि किसी उपकार्य का मानक समय 8 घण्टे है, एक श्रमिक द्वारा लिया गया वास्तविक समय 6 घण्टे है, समय दर ₹ 200 प्रति घण्टा है, रोवन योजना के अन्तर्गत कुल पारिश्रमिक है :

- (A) ₹ 1,200
- (B) ₹ 1,500
- (C) ₹ 1,400
- (D) ₹ 1,600

38. सामान्य डूबत ऋण की मद संबंधित है :

- (A) कारखाना उपरिव्यय से
- (B) विक्रय उपरिव्यय से
- (C) वितरण उपरिव्यय से
- (D) उत्पादन लागत से

39. सर्वाधिक संभाव्य उत्पादन क्षमता, जबकि सयंत्र का बिल्कुल भी समय नष्ट न हो, है :

- (A) सैद्धांतिक क्षमता
- (B) व्यावहारिक क्षमता
- (C) सामान्य क्षमता
- (D) विक्रय प्रत्याशा पर आधारित क्षमता

40. अनिश्चयन गुणांक है :

- (A) γ^2
- (B) $1 - \gamma^2$
- (C) σ^2
- (D) b_{xy} तथा b_{yx}

41. जब लाभ मात्रा अनुपात 0.6 है, उत्पादन की सीमांत लागत ₹ 20 है; तब विक्रय मूल्य होगा :

- (A) ₹ 40
- (B) ₹ 32
- (C) ₹ 28
- (D) ₹ 50

42. A large margin of safety indicates :

- (A) Over capitalisation
- (B) Soundness of business
- (C) Excess production
- (D) Break even point

43. Standard price of material per kg is ₹ 20, Standard usage per unit of production is 5 kg. Actual usage of producing 100 units is 520 kg purchased at the rate of ₹ 22 per kg. Material usage variance will be :

- (A) ₹ 400 (A)
- (B) ₹ 440 (A)
- (C) ₹ 1040 (F)
- (D) ₹ 440 (F)

44. This is **not** the reason for material usage variance :

- (A) Poor quality of material
- (B) Emergency purchases
- (C) Change in material mix
- (D) Excessive waste

45. The functions of "Factor" include :

- (A) Collection of receivables
- (B) Sales ledger management
- (C) Financing of trade debtors
- (D) All of the above

46. Activity based costing is concerned with distribution of cost related to :

- (A) Direct activities
- (B) Indirect activities
- (C) Prime activities
- (D) Basic activities

42. अधिक सीमा सुरक्षा प्रदर्शित करती है :

- (A) अति पूँजीकरण
- (B) व्यापार की सुदृढ़ता
- (C) अधिक उत्पादन
- (D) सम विच्छेद बिंदु

43. सामग्री का प्रमाण मूल्य ₹ 20 प्रति कि.ग्रा. है; प्रति इकाई उत्पादन के लिए प्रमाण मात्रा 5 कि.ग्रा. है। 100 इकाइयों के उत्पादन के लिए वास्तविक प्रयुक्त सामग्री 520 कि.ग्रा. है, जिसे ₹ 22 प्रति कि.ग्रा. की दर से खरीदा गया। सामग्री मात्रा विचरण होगा :

- (A) ₹ 400 (A)
- (B) ₹ 440 (A)
- (C) ₹ 1040 (F)
- (D) ₹ 440 (F)

44. यह सामग्री प्रयोग विचरण का कारण नहीं है :

- (A) खराब किस्म की सामग्री
- (B) सामग्री का आपातकालीन क्रय
- (C) सामग्री मिश्रण में परिवर्तन
- (D) अत्यधिक क्षय

45. "फैक्टर" के कार्यों में सम्मिलित है :

- (A) देनदारों से वसूली
- (B) विक्रय-बही का प्रबंधन
- (C) व्यापारिक देनदारों का वित्तीय प्रबंधन
- (D) उपरोक्त सभी

46. क्रिया आधारित लेखांकन इन क्रियाओं की लागतों के वितरण से संबंधित है :

- (A) प्रत्यक्ष क्रियाएँ
- (B) अप्रत्यक्ष क्रियाएँ
- (C) मुख्य क्रियाएँ
- (D) आधारभूत क्रियाएँ

47. This is **not** a DCF technique :

- (A) Net present value
- (B) Internal rate of return
- (C) Profitability index
- (D) Accounting rate of return

48. Beta factor of investment is 0.9. Risk free rate of return is 9 per cent. The average rate of market return is 19 per cent. The cost of capital based on Capital Asset Pricing Model will be :

- (A) 10 per cent
- (B) 28 per cent
- (C) 19.81 per cent
- (D) 18 per cent

49. Which capital structure model suggests about the Optimal Capital Structure ?

- (A) Traditional Approach
- (B) Net Income Approach
- (C) Net Operating Income Approach
- (D) MM Approach

50. Efficiency ratio is :

- (A) $\frac{\text{Actual Hours}}{\text{Budgeted Hours}} \times 100$
- (B) $\frac{\text{Standard Hours}}{\text{Actual Hours}} \times 100$
- (C) $\frac{\text{Standard Hours}}{\text{Budgeted Hours}} \times 100$
- (D) $\frac{\text{Budgeted Hours}}{\text{Standard Hours}} \times 100$

47. यह अपलेखित रोकड़ प्रवाह तकनीक **नहीं** है :

- (A) शुद्ध वर्तमान मूल्य
- (B) आंतरिक प्रत्याय दर
- (C) लाभदायकता सूचकांक
- (D) लेखांकन प्रत्याय दर

48. किसी विनियोजन का बीटा घटक 0.9 है। जोखिम मुक्त प्रत्याय दर 9 प्रतिशत है। बाजार में औसत प्रत्याय दर 19 प्रतिशत है। पूँजी सम्पत्ति मूल्यांकन प्रतिरूप के आधार पर पूँजी की लागत होगी :

- (A) 10 प्रतिशत
- (B) 28 प्रतिशत
- (C) 19.81 प्रतिशत
- (D) 18 प्रतिशत

49. कौनसा पूँजी संरचना प्रतिरूप अनुकूलतम पूँजी संरचना के बारे में सुझाता है ?

- (A) पारम्परिक अभिगम
- (B) शुद्ध आय अभिगम
- (C) शुद्ध परिचालन आय अभिगम
- (D) मोदिग्लियानि मिलर अभिगम

50. कार्यकुशलता अनुपात है :

- (A) $\frac{\text{वास्तविक घण्टे}}{\text{बजट घण्टे}} \times 100$
- (B) $\frac{\text{मानक घण्टे}}{\text{वास्तविक घण्टे}} \times 100$
- (C) $\frac{\text{मानक घण्टे}}{\text{बजट घण्टे}} \times 100$
- (D) $\frac{\text{बजट घण्टे}}{\text{मानक घण्टे}} \times 100$

51. Following Journal Entry is given :

Material control A/c Dr.	10,000
Material price variance A/c Dr.	2,000
To Creditors A/c	12,000

In this journal entry material control a/c is debited for :

- (A) Actual quantity purchased at standard cost
- (B) Actual quantity purchased at actual cost
- (C) Standard quantity purchased at actual cost
- (D) Standard quantity purchased at standard cost

52. Sweat equity shares are issued to :

- (A) Employees of the Company
- (B) Existing shareholders
- (C) Convertible debenture holders
- (D) Financial institutions

53. The shape of a data distribution skewed to the left shows :

- (A) Positive skewness
- (B) Zero skewness
- (C) Negative skewness
- (D) Perfect skewness

54. Arithmetic mean is affected by :

- (A) Change of scale only
- (B) Change of origin only
- (C) Both of the above
- (D) None of the above

55. Coefficient of correlation is affected by :

- (A) Change of scale only
- (B) Change of origin only
- (C) Both of the above
- (D) None of the above

51. निम्नलिखित जर्नल प्रविष्टि दी गई है :

सामग्री नियंत्रण खाता डेबिट	10,000
सामग्री मूल्य विचरण खाता डेबिट	2,000
लेनदार खाता क्रेडिट	12,000

इस जर्नल प्रविष्टि में सामग्री नियंत्रण खाता डेबिट किया गया है :

- (A) वास्तविक क्रय मात्रा प्रमाप लागत से
- (B) वास्तविक क्रय मात्रा वास्तविक लागत से
- (C) प्रमाप क्रय मात्रा वास्तविक लागत से
- (D) प्रमाप क्रय मात्रा प्रमाप लागत से

52. स्वेद समता अंश निर्गमित किए जाते हैं :

- (A) कम्पनी के कर्मचारियों को
- (B) वर्तमान अंशधारियों को
- (C) परिवर्तनीय ऋणपत्रधारियों को
- (D) वित्तीय संस्थानों को

53. एक समक बंटन का आकार बाँयीं ओर झुका होना, प्रदर्शित करता है :

- (A) धनात्मक विषमता
- (B) शून्य विषमता
- (C) ऋणात्मक विषमता
- (D) पूर्ण विषमता

54. समान्तर माध्य प्रभावित होता है :

- (A) केवल पैमाने में परिवर्तन से
- (B) केवल मूल बिंदु में परिवर्तन से
- (C) उपरोक्त दोनों से
- (D) उपरोक्त में किसी से नहीं

55. सहसंबंध गुणांक प्रभावित होता है :

- (A) केवल पैमाने में परिवर्तन से
- (B) केवल मूल बिंदु में परिवर्तन से
- (C) उपरोक्त दोनों से
- (D) उपरोक्त में किसी से नहीं

56. Select the **correct** option for $P(A_2/B)$:

- (A) $\frac{P(A_1)P(B/A_1)}{P(A_1)P(B/A) + P(A_2)P(B/A_2)}$
- (B) $\frac{P(A_1)P(A/B)}{P(A_1)P(B/A) + P(A_2)P(B/A_2)}$
- (C) $\frac{P(A_2)P(B/A_2)}{P(A_1)P(B/A_1) + P(A_2)P(B/A_2)}$
- (D) $\frac{P(A_2)P(B/A_1)}{P(A_1)P(B/A_1) + P(A_2)P(B/A_2)}$

57. Given $P(A/B) = P(A)$ where $A \neq 0$ and $B \neq 0$; select the **correct** option :

- (A) Events A and B are independent
- (B) Events A and B are dependent
- (C) Insufficient information is given
- (D) Events A and B are mutually exclusive

58. Poisson probability distribution is :

- (A) A continuous distribution with two parameters
- (B) A discrete distribution with two parameters
- (C) A continuous distribution with a single parameter
- (D) A discrete distribution with a single parameter

59. For samples of size greater than 30, the sampling distribution of the rank coefficient correlation is approximately which distribution ?

- (A) F distribution
- (B) Binomial distribution
- (C) Chi-square distribution
- (D) Normal distribution

56. $P(A_2/B)$ के लिए **सही** विकल्प का चुनाव करें :

- (A) $\frac{P(A_1)P(B/A_1)}{P(A_1)P(B/A) + P(A_2)P(B/A_2)}$
- (B) $\frac{P(A_1)P(A/B)}{P(A_1)P(B/A) + P(A_2)P(B/A_2)}$
- (C) $\frac{P(A_2)P(B/A_2)}{P(A_1)P(B/A_1) + P(A_2)P(B/A_2)}$
- (D) $\frac{P(A_2)P(B/A_1)}{P(A_1)P(B/A_1) + P(A_2)P(B/A_2)}$

57. यदि $P(A/B) = P(A)$ जबकि $A \neq 0$ तथा $B \neq 0$; **सही** विकल्प का चुनाव कीजिए :

- (A) घटना A तथा B स्वतंत्र हैं
- (B) घटना A तथा B आश्रित हैं
- (C) अपर्याप्त सूचना दी गई है
- (D) घटना A तथा B परस्पर अपवर्जी हैं

58. प्वाँयसन प्रायिकता बंटन है :

- (A) एक सतत बंटन जिसके दो प्राचल होते हैं
- (B) एक खंडित बंटन जिसके दो प्राचल होते हैं
- (C) एक सतत बंटन जिसका एक ही प्राचल होता है
- (D) एक खंडित बंटन जिसका एक ही प्राचल होता है

59. 30 से अधिक इकाइयों के प्रतिदर्श के लिए, कोटि सहसंबंध गुणांक का निदर्शन बंटन, लगभग होता है :

- (A) F बंटन
- (B) द्विपद बंटन
- (C) काई-वर्ग बंटन
- (D) प्रसामान्य बंटन

60. In graphic presentation of data, z curve is :

- (A) Curve of original data
- (B) Curve of cumulative data
- (C) Moving total curve
- (D) All of the above

61. Pie Diagram is :

- (A) One dimensional diagram
- (B) Two dimensional diagram
- (C) Three dimensional diagram
- (D) Square diagram

62. The largest value of standard error of proportion if number of items in a sample are 100 will be :

- (A) 0.09
- (B) 0.5
- (C) 0.25
- (D) 0.05

63. Variance of a binomial distribution is :

- (A) $(p + q)^n$
- (B) npq
- (C) m
- (D) $\frac{\sum d^2 x}{n}$

64. The parametric value of standard normal distribution are :

- (A) $\mu = 0, \sigma = 1$
- (B) $\mu = 1, \sigma = 0$
- (C) $\mu = 0, \sigma = 0$
- (D) $\mu = 1, \sigma = 1$

60. समकों के बिंदुरेखीय प्रदर्शन में z वक्र है :

- (A) मौलिक समकों का वक्र
- (B) संचित समकों का वक्र
- (C) चल योग वक्र
- (D) उपरोक्त सभी

61. वर्तुल चित्र है :

- (A) एक विमा चित्र
- (B) द्वि विमा चित्र
- (C) त्रि विमा चित्र
- (D) वर्ग चित्र

62. यदि किसी प्रतिदर्श में 100 इकाइयाँ हैं, अनुपात की प्रमाप त्रुटि का अधिकतम मूल्य होगा :

- (A) 0.09
- (B) 0.5
- (C) 0.25
- (D) 0.05

63. द्विपद बंटन का प्रसरण है :

- (A) $(p + q)^n$
- (B) npq
- (C) m
- (D) $\frac{\sum d^2 x}{n}$

64. मानक प्रसामान्य बंटन के प्राचलों का मूल्य है :

- (A) $\mu = 0, \sigma = 1$
- (B) $\mu = 1, \sigma = 0$
- (C) $\mu = 0, \sigma = 0$
- (D) $\mu = 1, \sigma = 1$

65. Standard error is :
- (A) Standard deviation of sample statistic
 (B) Standard deviation of sampling distribution of the statistic
 (C) Standard normal variate
 (D) Sampling error
66. In large samples at 0.27% level of significance, the estimated value of population mean will be calculated by using formula :
- (A) $\bar{X} \pm 1.96 \sigma_{\bar{X}}$
 (B) $\bar{X} \pm 2.58 \sigma_{\bar{X}}$
 (C) $\bar{X} \pm 3 \sigma_{\bar{X}}$
 (D) $\bar{X} \pm 2 \sigma_{\bar{X}}$
67. As per Income Tax Act, which income is covered under agricultural income ?
- (A) Income from trees and plants grown by nature.
 (B) Dividend from an Indian Company, the entire income of which is agricultural income.
 (C) Income from letting tractors for agricultural purposes.
 (D) Income from letting of a land situated in India, which is used for agricultural purposes.
68. Mr. Rohit is non-resident in India. Which income is taxable from the following ?
- (A) Rent received in Japan from House property situated in Japan.
 (B) Salary received in Canada for the service rendered in India.
 (C) Past untaxed foreign income which was brought in India in previous year.
 (D) None of the above

65. प्रमाप त्रुटि है :
- (A) प्रतिदर्श सांख्यिकी का प्रमाप विचलन
 (B) प्रतिदर्शज के निदर्शन बंटन का प्रमाप विचलन
 (C) मानक प्रसामान्य चर
 (D) निदर्शन त्रुटि
66. बड़े प्रतिदर्शों में प्राचल माध्य का अनुमानित मूल्य 0.27 प्रतिशत सार्थकता स्तर पर ज्ञात करने के लिए सूत्र होगा :
- (A) $\bar{X} \pm 1.96 \sigma_{\bar{X}}$
 (B) $\bar{X} \pm 2.58 \sigma_{\bar{X}}$
 (C) $\bar{X} \pm 3 \sigma_{\bar{X}}$
 (D) $\bar{X} \pm 2 \sigma_{\bar{X}}$
67. आयकर अधिनियम के अनुसार कौनसी आय कृषि आय के अन्तर्गत आती है ?
- (A) प्राकृतिक रूप से उत्पन्न पेड़ एवं पौधों से आय।
 (B) एक भारतीय कम्पनी से लाभांश जिसकी सम्पूर्ण आय कृषि आय है।
 (C) कृषि कार्य के उद्देश्य से ट्रैक्टर किराये पर देने से आय।
 (D) भारत में स्थित भूमि को किराये पर देने से आय, जिसे कृषि कार्यों के लिए प्रयुक्त किया जाता है।
68. मिस्टर रोहित भारत में अनिवासी है। निम्न में से कौनसी आय कर योग्य है ?
- (A) जापान में स्थित मकान सम्पत्ति से जापान में प्राप्त किराया।
 (B) भारत में दी गयी सेवाओं के लिए कनाडा में प्राप्त वेतन।
 (C) गत वर्ष में भारत में पिछली बिना कर लगी विदेशी आय लायी गयी।
 (D) उपरोक्त में से कोई नहीं।

69. Family pension received by a widow of a deceased employee is chargeable to tax under the head :

- (A) Salary
- (B) Income from Business and Profession
- (C) Income from other sources
- (D) Exempt from Tax

70. Find out exempted income of an individual assessee.

- (A) Interest on Post Office Saving Account
- (B) Interest on Public Provident Fund
- (C) Dividend from Indian Company
- (D) All of the above

71. If income of a minor child is clubbed with the income of parents U/S 64(1A), then such income shall be exempt from tax upto :

- (A) ₹ 5,000
- (B) ₹ 2,500
- (C) ₹ 1,500
- (D) ₹ 1,000

72. Income from speculation is chargeable to tax under :

- (A) Income from Business and Profession
- (B) Income from other sources
- (C) Not taxable in any head
- (D) Capital Gain

73. Winning from Lotteries is a :

- (A) Casual income
- (B) Business income
- (C) Capital receipts
- (D) None of the above

69. एक मृतक कर्मचारी की विधवा को प्राप्त पारिवारिक पेंशन शीर्षक के अन्तर्गत कर योग्य है :

- (A) वेतन
- (B) व्यावसाय और पेशे की आय
- (C) अन्य साधनों से आय
- (D) कर मुक्त

70. एक व्यक्ति करदाता की कर मुक्त आय ज्ञात कीजिये।

- (A) पोस्ट ऑफिस बचत खाते में जमा ब्याज
- (B) सार्वजनिक भविष्य निधि खाते में जमा ब्याज
- (C) एक भारतीय कम्पनी से लाभांश
- (D) उपरोक्त सभी

71. यदि एक अवयस्क बच्चे की आय उसके माता-पिता की आय में धारा 64(1A) के अन्तर्गत शामिल की जाती है, तो ऐसी आय निम्न सीमा तक कर मुक्त होगी :

- (A) ₹ 5,000
- (B) ₹ 2,500
- (C) ₹ 1,500
- (D) ₹ 1,000

72. सट्टे से आयकर योग्य है :

- (A) व्यावसाय एवं पेशे की आय
- (B) अन्य साधनों से आय
- (C) किसी भी शीर्षक में कर योग्य नहीं
- (D) पूँजी लाभ

73. लॉटरी से आय है :

- (A) आकस्मिक आय
- (B) व्यावसायिक आय
- (C) पूँजीगत प्राप्ति
- (D) उपरोक्त में से कोई नहीं

74. As per Section 2 (24) of Income Tax Act, 1961, the term 'income' includes :
- (A) Dividend
(B) Profits and Gains
(C) Any capital gain chargeable under Section 45
(D) All of the above
75. As per Section 6 of Income Tax Act, 1961, an individual assessee can be classified into :
- (A) Ordinarily Resident
(B) Not Ordinarily Resident
(C) Non - Resident
(D) Any of the above
76. An individual is said to be ordinarily resident in India, if he or she :
- (A) Resided in India in previous year for a period or periods amounting in all to 182 days or more.
(B) Resided in India for a period or periods amounting in all to 365 days or more within the four years immediately preceding the previous year and also resided in India for 60 days or more in the previous year.
(C) (A) or (B) along with additional conditions.
(D) Both (A) and (B) along with additional conditions.
77. According to Sec. 14 of Income Tax Act, aggregate amount of all five heads after making adjustments for deemed income and set off losses, if any, is known as :
- (A) Total Income
(B) Gross Total Income
(C) Long Term Capital Gain
(D) Casual Income
78. Aggregate of all allowable deductions under Section 80 C to 80 U can **not** exceed :
- (A) Gross Total Income
(B) Total Income
(C) Long Term Capital Gains
(D) Business Incomes
74. आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 2 (24) के अनुसार 'आय' शब्द में शामिल है :
- (A) लाभांश
(B) लाभ तथा प्राप्तियाँ
(C) धारा 45 के अन्तर्गत कर योग्य पूँजी लाभ
(D) उपरोक्त सभी
75. आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 6 के अनुसार एक व्यक्ति करदाता को वर्गीकृत किया गया है :
- (A) साधारण निवासी
(B) असाधारण निवासी
(C) अनिवासी
(D) उपरोक्त में से कोई भी
76. एक व्यक्ति को भारत में साधारण निवासी कहा जायेगा यदि वह :
- (A) गत वर्ष में कुल मिलाकर 182 दिन अथवा अधिक भारत में रहा हो।
(B) गत वर्ष से तुरन्त पूर्व के चार वर्षों में कुल मिलाकर 365 दिन अथवा अधिक भारत में रहा हो तथा गत वर्ष में 60 दिन अथवा अधिक भारत में रहा हो।
(C) (A) अथवा (B) अतिरिक्त शर्तों के साथ पूरी करता है।
(D) (A) तथा (B) दोनों अतिरिक्त शर्तों के साथ पूरी करता है।
77. आयकर अधिनियम की धारा 14 के अनुसार हानियों का समायोजन तथा मानी गयी आयों का समायोजन के पश्चात् पाँचों शीर्षक की कर-योग्य आयों का योग को जाना जाता है :
- (A) कुल आय
(B) सकल कुल आय
(C) दीर्घकालीन पूँजी लाभ
(D) आकस्मिक आय
78. धारा 80 C से 80 U के अन्तर्गत कुल स्वीकृत कटौतियों का योग अधिक **नहीं** हो सकता है :
- (A) सकल कुल आय
(B) कुल आय
(C) दीर्घकालीन पूँजी लाभ
(D) व्यावसायिक आय

79. Which of the following is covered under Sec. 80 D of the Income Tax Act, 1961 ?
- (A) Medical treatment of handicapped dependent
(B) Medical Insurance Premium
(C) Reimbursement of Medical Expenses
(D) Life Insurance Premium
80. Deemed income or clubbing of income means :
- (A) Addition of incomes of all partners.
(B) Inclusion of income of other person in assessee income.
(C) Total income of all five heads.
(D) Addition of income of all family members.
81. Income of minor child or children is clubbed to :
- (A) Mother's income
(B) Father's income
(C) Father's or mother's income, whichever is greater
(D) Neither father's income nor mother's income
82. Which of the following donations are eligible for 100% deductions without any limit ?
- (A) National Defence Fund
(B) National Sports Fund
(C) National Children Fund
(D) All of the above
83. Total income of an assessee is to be rounded off to nearest multiple of _____ and income tax is to be rounded off to nearest multiple of _____.
- (A) Hundred, Ten
(B) Ten, Hundred
(C) Ten, Ten
(D) None of the above
84. The objects of an audit are :
- (A) To examine truth and fairness of financial statements.
(B) Detection of errors and frauds.
(C) Prevention of errors and frauds
(D) All of the above

79. आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80 D के अन्तर्गत कौनसी मद अन्तर्निहित है ?
- (A) निर्भर विकलांग की चिकित्सा पर व्यय
(B) चिकित्सा बीमा प्रीमियम
(C) चिकित्सा व्ययों का पुनर्भरण
(D) जीवन बीमा प्रीमियम
80. मानी गयी आय अथवा सम्मिलित की गयी आय से अभिप्राय है :
- (A) सभी साझेदारों की आय का योग करना।
(B) करदाता की आय में अन्य व्यक्ति की आय को जोड़ना।
(C) पाँचों शीर्षक की आयों का योग करना।
(D) परिवार के सभी सदस्यों की आयों का योग करना।
81. अवयस्क बच्चा या बच्चे की आय जोड़ी जायेगी :
- (A) माता की आय में
(B) पिता की आय में
(C) पिता या माता जिसकी आय अधिक हो।
(D) न तो पिता की आय में और न माता की आय में।
82. निम्नलिखित दिये गये दानों में से कौन से दान 100% बिना किसी अधिकतम सीमा के कटौती योग्य है ?
- (A) राष्ट्रीय सुरक्षा कोष
(B) राष्ट्रीय खेल कोष
(C) राष्ट्रीय बालक कोष
(D) उपरोक्त सभी
83. एक करदाता की कुल आय को निकटतम गुणक _____ में पूर्णांक करने तथा आयकर को निकटतम गुणक _____ में पूर्णांक करने हेतु।
- (A) ₹ 100; ₹ 10
(B) ₹ 10; ₹ 100
(C) ₹ 10; ₹ 10
(D) उपरोक्त में से कोई नहीं
84. एक अंकेक्षण के उद्देश्य हैं :
- (A) वित्तीय विवरणों की सत्यता एवं उचितता का परीक्षण / जाँच करना।
(B) अशुद्धियों तथा कपटों का पता लगाना।
(C) अशुद्धियों तथा कपटों को रोकना।
(D) उपरोक्त सभी

85. Internal check system involves :
- (A) Division of work
(B) Fixation of responsibilities
(C) Early detection of errors and frauds
(D) All of the above
86. The act of examining documentary evidence in order to ascertain the accuracy and authenticity of entries in books of accounts is called :
- (A) Verification
(B) Valuation
(C) Vouching
(D) Test checking
87. Object of verification is :
- (A) To examine ownership of assets
(B) Physical verification of assets
(C) Checking value of assets
(D) All of the above
88. Stock should be valued at :
- (A) Cost price
(B) Market price
(C) Cost price and market price whichever is lower
(D) None of the above
89. First auditor of a Company is appointed by the :
- (A) Shareholders
(B) Central Government
(C) Board of Directors
(D) Debenture holders
90. Which of the following persons are disqualified to be a Company auditor ?
- (A) an officer or employee of the Company.
(B) a person whose relative is a director or is in the employment of the Company as a director or key managerial personnel.
(C) a person who has been convicted by a court of an offence involving fraud and a period of ten years has not elapsed from the date of such conviction.
(D) all of the above
85. आन्तरिक निरीक्षण प्रणाली के अन्तर्गत सम्मिलित है :
- (A) कार्य का विभाजन
(B) उत्तरदायित्वों का निर्धारण
(C) अशुद्धियों एवं कपटों का शीघ्र पता लगाना
(D) उपरोक्त सभी
86. दस्तावेजों सम्बन्धी सबूतों की लेखा पुस्तकों में शुद्धता तथा अधिकृतता की जाँच करना कहलाता है :
- (A) सत्यापन
(B) मूल्यांकन
(C) प्रमाणन
(D) परीक्षण जाँच
87. सत्यापन का उद्देश्य है :
- (A) सम्पत्तियों के स्वामित्व की जाँच करना
(B) सम्पत्तियों का भौतिक सत्यापन
(C) सम्पत्तियों के मूल्यांकन की जाँच
(D) उपरोक्त सभी
88. स्टॉक का मूल्यांकन किया जाना चाहिये :
- (A) लागत मूल्य पर
(B) बाजार मूल्य पर
(C) लागत अथवा बाजार मूल्य जो भी कम हो
(D) उपरोक्त में से कोई नहीं
89. प्रथम अंकेक्षक की नियुक्ति एक कम्पनी में की जाती है :
- (A) अंशधारकों द्वारा
(B) केन्द्रीय सरकार द्वारा
(C) संचालक मण्डल द्वारा
(D) ऋणपत्रधारियों द्वारा
90. निम्न में से कौन व्यक्ति एक कम्पनी अंकेक्षक के लिए अयोग्यता रखता है ?
- (A) कम्पनी का अधिकारी या कर्मचारी।
(B) एक व्यक्ति जो संचालक अथवा कम्पनी के संचालक कर्मचारी अथवा प्रमुख प्रबन्धकीय पद पर कार्यरत व्यक्ति का रिश्तेदार हो।
(C) एक व्यक्ति जो न्यायालय से किसी कपटपूर्ण अपराध के लिए दोषी सिद्ध हुआ हो तथा दोष सिद्ध होने की तिथि से 10 वर्षों की अवधि समाप्त नहीं हुई हो।
(D) उपरोक्त सभी

91. A Company auditor, in general, has to submit his report to :

- (A) Board of Directors
- (B) Central Government
- (C) Shareholders
- (D) Company Secretary

92. An auditor should be dutiful like :

- (A) a watch dog
- (B) a blood hound
- (C) a detective
- (D) an insurer

93. Which of the following statement is **not** correct regarding removal of auditor who is appointed U/S 139 before expiry of the term ?

- (A) He can be removed by passing special resolution U/S 140 of Company's Act.
- (B) The approval of Central Govt. is required for such removal.
- (C) Board of Directors are authorised to do so.
- (D) None of these.

94. If a casual vacancy in the office of auditor arises by his resignation, it should be filled by the Company in a _____.

- (A) Board Meeting
- (B) Extraordinary General Meeting
- (C) Recommendation by Board of Directors and approval in Annual General Meeting
- (D) None of these

95. Liability of an honorary auditor will be :

- (A) Same as that of a paid auditor.
- (B) He will not be liable as he worked in an honorary capacity.
- (C) Limited to work completed by him.
- (D) None of the above

91. एक कम्पनी अंकेक्षक सामान्य स्थितियों में अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है :

- (A) संचालक मण्डल को
- (B) केन्द्रीय सरकार को
- (C) अंशधारियों को
- (D) कम्पनी सचिव को

92. एक अंकेक्षक को कर्तव्यनिष्ठ होना चाहिये :

- (A) एक रखवाली करने वाले कुत्ते की तरह
- (B) एक शिकारी कुत्ते के समान
- (C) एक जासूस की तरह
- (D) एक बीमक की तरह

93. एक अंकेक्षक जो धारा 139 के अन्तर्गत नियुक्त किया गया हो, उसे उसके कार्यकाल पूर्ण होने के पूर्व हटाने सम्बन्धी कौनसा विवरण सत्य नहीं है ?

- (A) कम्पनी अधिनियम की धारा 140 के अंतर्गत विशेष प्रस्ताव पारित करके हटाया जा सकता है।
- (B) ऐसे निष्कासन के लिए केन्द्रीय सरकार का अनुमोदन आवश्यक है।
- (C) संचालक मण्डल को ऐसा करने का अधिकार है।
- (D) इनमें से कोई नहीं।

94. यदि अंकेक्षक के त्याग पत्र के फलस्वरूप आकस्मिक रिक्तता उत्पन्न होती है, तो एक कम्पनी द्वारा इसे भरा जाना चाहिये :

- (A) बोर्ड मितिग में
- (B) असाधारण सामान्य सभा में
- (C) संचालक मण्डल द्वारा सिफारिश तथा वार्षिक सामान्य सभा में अनुमोदन
- (D) इनमें से कोई नहीं

95. बिना पारिश्रमिक के कार्य करने वाले अंकेक्षक का दायित्व होगा :

- (A) पारिश्रमिक प्राप्त करने वाले अंकेक्षक के समान।
- (B) उसका दायित्व नहीं है क्योंकि उसने बिना पारिश्रमिक के कार्य किया है।
- (C) जितना कार्य उसने समाप्त किया है उस सीमा तक।
- (D) उपरोक्त में से कोई नहीं

96. _____ is an efficient, critical, analytical and deep examination of accounts of Business for some special purposes.
- (A) Verification
(B) Vouching
(C) Investigation
(D) Valuation
97. Which of the following statement is **not** correct ?
- (A) Auditor of Govt. Company shall be appointed by the Central Govt. on advice of C & AG.
(B) Auditor of Govt. Companies has right to access at all times to the books of accounts.
(C) Auditor of Govt. Company submits his report to shareholders.
(D) None of the above
98. Remuneration of auditor of a Govt. Company is fixed by :
- (A) The C & AG
(B) Shareholders
(C) Board of Directors
(D) Company Secretary
99. Who can conduct Cost Audit ?
- (A) Cost Accountants within the meaning of Cost and Works Accountant Act, 1959
(B) Chartered Accountants possessing qualifications prescribed under the Chartered Accountant Act, 1949
(C) Any Post - Graduate in Commerce
(D) (A) or (B)
100. An audit to examine, review and independently appraise the various policies of the management on the basis of objectives standards. It is called :
- (A) Efficiency Audit
(B) Performance Audit
(C) Management Audit
(D) Cost Audit
96. _____ एक कुशलतापूर्वक, आलोचनात्मक, विश्लेषणात्मक और गहन जाँच एक व्यावसायिक लेखा पुस्तकों की जाती है जो किसी विशेष उद्देश्य की पूर्ति हेतु होती है।
- (A) सत्यापन
(B) प्रमाणन
(C) अनुसन्धान
(D) मूल्यांकन
97. निम्नांकित विवरण में से कौन सा विवरण सही नहीं है ?
- (A) सरकारी कम्पनी में अंकेक्षक की नियुक्ति नियन्त्रक एवं महालेखाकार की सलाह पर केन्द्रीय सरकार द्वारा की जाती है।
(B) सरकारी कम्पनी के अंकेक्षक को लेखा पुस्तकों तक किसी भी समय पहुँचने का अधिकार है।
(C) सरकारी कम्पनी का अंकेक्षक अपना प्रतिवेदन अंशधारियों को प्रस्तुत करता है।
(D) उपरोक्त में से कोई नहीं
98. एक सरकारी कम्पनी के अंकेक्षक का पारिश्रमिक निश्चित किया जाता है :
- (A) नियन्त्रक एवं महालेखाकार द्वारा
(B) अंशधारियों द्वारा
(C) संचालक मण्डल द्वारा
(D) कम्पनी सचिव द्वारा
99. लागत अंकेक्षण कौन कर सकता है ?
- (A) कॉस्ट एण्ड वर्क्स लेखाकार अधिनियम, 1959 के अन्तर्गत लागत लेखाकार
(B) चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट अधिनियम, 1949 के अन्तर्गत निर्धारित योग्यता प्राप्त चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट
(C) वाणिज्य विषय से स्नातकोत्तर
(D) (A) अथवा (B)
100. एक अंकेक्षण जो प्रभावित उद्देश्यों के आधार पर प्रबन्धकीय नीतियों की जाँच, समीक्षा तथा स्वतंत्र रूप से आँकने / मूल्यांकन के लिए किया जाता है, कहलाता है :
- (A) कुशलता अंकेक्षण
(B) निष्पत्ति अंकेक्षण
(C) प्रबन्ध अंकेक्षण
(D) लागत अंकेक्षण

- o O o -

- o O o -

SPACE FOR ROUGH WORK / रफ कार्य के लिये जगह

SPACE FOR ROUGH WORK / रफ कार्य के लिये जगह

SEAL